

पत्रांक :- 2704 (अनु०)

/टिकारी, दिनांक :- 21/11/25

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, टिकारी।

सेवा में

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

विषय:-

MMGSY (SC) योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या-21/SBD/MMGSY/2021-22 पथ Construction & Maintenance from Singhra Mathiya Road to Nimrahi में जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) हेतु संवेदक द्वारा दावा विपत्र की स्वीकृति हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-BRRDA (HQ) GST-01-524/2024-4006 अनु० दिनांक:-29.08.2025 एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया के पत्रांक:-2041 अनु० दिनांक:-18.09.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि MMGSY (SC) योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या-21/SBD/MMGSY/2021-22 पथ Construction & Maintenance from Singhra Mathiya Road to Nimrahi में VAT/GST में अंतर राशि की प्रतिपूर्ति हेतु रु. 9,20,929.00 (नौ लाख बीस हजार नौ सौ उनतीस रुपये) मात्र का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, टिकारी।

21-11-25
21/11/25

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।

Email ID- segavacircle@gmail.com WhatsAppNo- 8986915208

पत्रांक:- 2041.....अनु०

गया / दिनांक :- 12/09/2025

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, गया।

सेवा में,

19-9-25

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, टिकारी।

विषय:- शीर्ष MMSY-SC योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या-21/SBD/MMGSY/2021-22 पथ-
Construction & maintenance of road from Singhra Mathiya road to Nimrahi में
जी०एस०टी० दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना
का पत्रांक-RWD(HQ)GST-01-524/2024-4006 अनु० दिनांक-29.08.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित कार्य में जी०एस०टी० की राशि की प्रतिपूर्ति जो जौचोपरान्त
रु. 9,20,929 /-रूपये मात्र होती है, के भुगतान हेतु संवेदक संजय कुमार को निम्न शर्तों के
साथ अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. किसी भी परिस्थिति में व्यय को प्रशासनिक स्वीकृति के अनुक्षेत्र सीमा के अंतर्गत रखा जाए।
2. यदि भविष्य में दावा नियमानुकूल नहीं पाया गया तो सम्पूर्ण राशि एक मुस्त संवेदक के अगले
विपत्र /अग्रधन से समायोजित कर ली जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

18.05.27
अधीक्षण अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।

Ganesh Kumar

Executive Engineer
W.D. Works Division
Tikari

12/09/25

ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना

पत्रांक:- BRRDA(HQ) GST-01-524/2024 - 4006 अजुं पटना / दिनांक:- 29.08.2024
प्रेषक,

अभय झा, माओसेो
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा।
सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल-गया।

विषय : MMGSY-SC योजनान्तर्गत एकरासनामा संख्या-21/SBD/MMGSY/2021-22
पथ- Construction & maintenance of road from Singhra Mathiya road to
Nimrahi में जीओएसटीओ दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग- कार्य प्रमंडल-टेकारी का पत्रांक-2320 अनु0, दिनांक-29.11.2024
महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विषयांकित पथ में GST अंतर राशि
रु 9,20,929/- का दावा की जाँच हेतु अभिलेख समर्पित किया गया है जिसके आधार पर
विभागीय GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co. द्वारा उक्त दावों की जाँच की गई तथा राशि
रु 9,20,929/- मात्र की राशि दावे के योग्य पाया गया है।

GST परामर्शी फर्म के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा एवं
परामर्शी के प्रतिवेदन निम्न शर्तों के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है:-

- कार्यपालक अभियंता GST Claim के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित
योजनान्तर्गत GST Claim का भुगतान पूर्व में न हुआ हो।
 - भुगतान से पूर्व State MIS पर भुगतान की राशि को अपलोड कर दिया गया है।
 - जिस संवेदक को भुगतान किया जा रहा है, वह कालीसूची में नहीं हैं।
 - संबंधित योजना में ATR लम्बित नहीं है।
 - कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि GST Claim की अनुशंसित
राशि का भुगतान संबंधित संवेदक को संबंधित योजना में ही किया जा रहा है।
 - एकरासनामा से अधिक राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि का पूरक एकरासनामा कर
लिया गया है।
- अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

ज्ञापक- BRRDA(HQ) GST-01-524/2024 - 4006

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-टेकारी को सूचनार्थ।

Ganesh Kumar

Executive Engineer

D. Works Division

Tekari

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

GST Claim के निष्पादन हेतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित समिति की दिनांक - 8/8/25 को आहूत बैठक की कार्यवाही

विषय :-MMGSY-SC योजनान्तर्गत Construction & Maintenance of Road from Singhra Mathiya Road to Nimrahi एकरारनामा संख्या 21 SBD/MMGSY/2021-2022 में जी.एस.टी. दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :- कार्य प्रमंडल, टेकारी का पत्रांक 2320 दिनांक 29.11.2024

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टेकारी द्वारा विषयांकित पत्र में रु० 9,20,929/- की जी.एस.टी. अंतर राशि का दावा जाँच हेतु समर्पित किया गया है। विभागीय पत्रांक 43/2023-761, दिनांक 23.03.2023 के आलोक में विभागीय जी.एस.टी. Consultant M/s SKSS & Co. द्वारा दावे की जाँच की गई तथा रु. 9,20,929/- मात्र की राशि के दावे के योग्य पाया गया है।

तदालोक में एकरारनामा 21 SBD/MMGSY/2021-2022 विषयांकित कार्य Construction & Maintenance of Road from Singhra Mathiya Road to Nimrahi के लिए दावे की राशि रु. 9,20,929/- रुपये मात्र संवेदक संजय कुमार को भुगतान की अनुशंसा की जाती है।



Gurpreet Singh
विभागीय GST
Consultant

Singh
सहायक वित्त
प्रबंधक, ब्राडा

Prabhat Kumar
वित्त प्रबंधक,
ब्राडा

5/8/25
GST नोडल पदाधिकारी

Ganraj Kumar

Executive Engineer
W.D. Works Division

6/10/25
Takarai

KSS & Co

Tel : +91 9263374200
Email- rwdgst@gmail.com

To,
The Additional Chief Executive Officer,
Bihar Rural Road Development Agency
Rural Works Department
Government of Bihar.

18.06.2025

Re: Submission of GST Impact Report of M/S Sanjay Kumar vide agreement number
21 SBD/MMGSY/2021-2022

Ref: Our appointment as GST Consultant by Rural Works Department, vide
agreement number BRDA/01/GST Consultancy dated 24.02.2023 and EE,
RWD Tekari, letter no. 2320 dated 29.11.2024

Respected Sir,

We are appointed to recommend payment of Impact arising on account of roll out of GST
and change in taxation structure by analyzing claim of contractors as per Scope of Work.

GST Impact Summary		
Agreement No.	Name of Project	GST Impact in Rupees (Construction)
21 SBD/MMGSY/2021-2022	Construction & Maintenance of Road from Singhra Mathiya Road to Nimrahi Under MMGSY-SC	9,20,929/-

We are therefore pleased to make our submission of GST Impact Report of M/s Sanjay Kumar for
the following project with reference to the Construction & Maintenance of Road from Singhra
Mathiya Road to Nimrahi Under MMGSY-SC.

DARIYAPUR GOLA ROAD
NALA ROAD, PATNA-800004

Executive Engineer
D. Works Division
Tekari

With this letter, we would like to draw your attention towards the following

facts: -

- 1) The impact being given is from RA Bill 01 to RA Bill 05. GST impact in later RA bills have to be verified and audited on submission of bill by M/s Sanjay Kumar in future period.
 - a) That with effect from 18th July 2022, the GST rate on works contract has been increased from 12% to 18% vide notification no. 03/2022 - Central Tax (Rate) dated 13.07.2022, hence for payment made after 18th July, 2022 GST @ 18% is applicable.
 - b) That the GST claim amount submitted for approval by the Contractor was Rs.9,20,929/- while as per our recommendation the GST claim amount shall be Rs.9,20,929/- which result in savings of Rs Nil/-.
 - c) That we have verified the deposit of tax from the GST returns and hence, we recommend the payment of 9,20,929/-

For any query or clarification, please contact the undersigned at earliest.

Therefore, kindly do the needful in this regard.

For and on behalf of
SKKSS & Co.

Sanjay Kumar
18/07/25

Authorized Signatory

Enclosed: -

- 1) GST claim computation

DARIYAPUR GOLA ROAD
NALA ROAD, PATNA-800004

Sanjay Kumar
06/11/25
Executive Engineer
R.W.D. Works Division



M/S Sanjay Kumar
Agreement No. : 21 SBI/MM/MSY 2021-2022
Construction & Maintenance of Road from Singhara Mathiya Road to Nimrahi

RA
SL. NO.
Bill No.

1 27.07.2022
2 27.04.2023
3 30.03.2023
4 04.08.2023
5 20.09.2023

Date of payment		Payment as per Certificate (A)	Embedded Tax (B)	GST paid as per GSTR 3B (C)	Actual GST to be Paid (D) = (A - B) x 18%	Claim (E) = (C or D, whichever is lower) - (B)
TOTAL		59,12,268 20,69,221 38,30,668 9,57,383 41,48,031 1,69,17,571	17,69,498	7,09,472 3,72,460 6,89,520 1,72,329 7,46,646 26,90,427	27,26,653	9,20,929

Computation of Embedded taxes [Note-1]

Particulars	Amount	GST embedded in total work done (%)
Total Work Done Value excluding taxes, cess etc (RA 05)	1,59,51,770	10.460%
GST @ 12%	19,14,212	
LC @ 1%	1,59,518	
SI	2,75,637	
Work Done Value Including taxes, cess and fees	1,83,01,137	
Work Done Value Including taxes, cess and fees (7.56 % below)	1,69,17,571	
Total Payment made	1,69,17,571	
Embedded tax from RA Bill 05	19,14,212	

Note-2

GSTR-3B MONTHLY BREAKUP OF July 2022

Name of Division
RURAL WORK DEPARTMENT WORKS DIVISION TIKARI

TOTAL

Taxable Value	59,12,268
% of Tax inclusive of	-
CGST @ 6%	3,54,736
SGST @ 6%	3,54,736.08
Total Tax	7,09,472
TDS Received	59,12,268.00

Note-4

GSTR-3B MONTHLY BREAKUP OF June 2023

Name of Division
RURAL WORK DEPARTMENT WORKS DIVISION TIKARI (RA 02) April
RURAL WORK DEPARTMENT WORKS DIVISION TIKARI (RA 03) May
RURAL WORK DEPARTMENT WORKS DIVISION TIKARI June

TOTAL

Taxable Value	59,65,421.00
% of Tax inclusive of	-
CGST @ 9%	5,36,887.89
SGST @ 9%	5,36,887.89
Total Tax	10,73,775.78
TDS Received	59,65,421.00

Note-3 For The Payment of RA Bill 02 & 03 April-May 2023, the GSTR-3B has been Filed in the month of June 2023, While TDS return has been filed in the respective month.

Sanjay Kumar



Executive Engineer
6-10-2023
D. Works Division
06/10/23

286

Note-5 For The Payment of Month August 2023, The GSTR-3B has been filed in the month of August 2023

Note-6						
GSTR-3B MONTHLY BREAKUP OF September 2023						
Name of Division	RURAL WORK DEPARTMENT WORKS DIVISION TIKARI	RURAL WORK DEPARTMENT WORKS DIVISION TIKARI (Others)	TOTAL			
Taxable Value	9,57,383	60,320	10,17,703.00			
% of Tax inclusive of	-	-	-			
CGST @ 9%	86,164	5,429	91,593.27			
SGST @ 9%	86,164	5,429	91,593.27			
Total Tax	1,72,329	10,858	1,83,186.54			
TDS Received	10,17,703	10,17,703.00	10,17,703.00			

Note-7 For The Payment of Month September 2023, The GSTR-3B has been filed in the month of September 2023

Note-8						
GSTR-3B MONTHLY BREAKUP OF February 2024						
Name of Division		RURAL WORK DEPARTMENT WORKS DIVISION TIKARI		TOTAL		
Taxable Value		3,36,372	3,36,372.00	38,43,858.00		
% of Tax inclusive of		-	-	-		
CGST @ 9%		30,273	30,273.48	3,45,947.22		
SGST @ 9%		30,273	30,273.48	3,45,947.22		
Total Tax		60,547	60,546.96	6,91,894.44		
TDS Received		41,48,031	41,48,031	41,80,230.00		
GSTR-3B MONTHLY BREAKUP OF March 2024						
Name of Division		RURAL WORK DEPARTMENT WORKS DIVISION TIKARI		TOTAL		
Taxable Value		38,11,659	32,199	38,43,858.00		
% of Tax inclusive of		-	-	-		
CGST @ 9%		3,43,049	2,898	3,45,947.22		
SGST @ 9%		3,43,049	2,898	3,45,947.22		
Total Tax		6,86,099	5,796	6,91,894.44		
TDS Received		41,80,230.00	32,199	41,80,230.00		

Disclaimer: The above reconciliation has been prepared based on the documents (GST returns/financial statements/ payment certificate).



Saurabh Kumar

Executive Engineer
610-25 W.D. Works Division
06/10/23
Tikari

**अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।**

Email ID- segayacircle@gmail.com WhatsAppNo- 8986915208

गया / दिनांक :- 12/09/2025

पत्रांक:-.....2041.....अनु0

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, गया।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, टिकारी।

विषय:- शीर्ष MMGSY-SC योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या-21/SBD/MMGSY/2021-22 पथ-
Construction & maintenance of road from Singhra Mathiya road to Nimrahi में
जी0एस0टी0 दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना
का पत्रांक-RWD(HQ)GST-01-524/2024-4006 अनु0 दिनांक-29.08.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित कार्य में जी0एस0टी0 की राशि की प्रतिपूर्ति जो जॉचोपरान्त
रु-9,20,929 / -रूपये मात्र होती है, के भुगतान हेतु संवेदक संजय कुमार को निम्न शर्तों के
साथ अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. किसी भी परिस्थिति में व्यय को प्रशासनिक स्वीकृति के अनुक्षेत्र सीमा के अंतर्गत रखा जाए।
2. यदि भविष्य में दावा नियमानुकूल नहीं पाया गया तो सम्पूर्ण राशि एक मुस्त संवेदक के अगले
विपत्र/अग्रधन से समायोजित कर ली जाय।

अनु0-यथोक्त।


विश्वासभाजन



18-09-27

अधीक्षण अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।



60/61
गंगा-3

बिहार, पटना

पत्रांक:- BRRDA(HQ) GST-01-524/2024 - 4006 आबु०

पटना / दिनांक:- 29.08.2024

प्रेषक,

अभय झा, भागलपुर

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अंचल-गया।

विषय : MMGSY-SC योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या-21/SBD/MMGSY/2021-22
पथ- Construction & maintenance of road from Singhra Mathiya road to
Nimrahi में जी0एस0टी0 दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग- कार्य प्रमंडल-टेकारी का पत्रांक-2320 अनु0, दिनांक-29.11.2024

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विषयांकित पथ में GST अंतर राशि
रु 9,20,929/- का दावा की जाँच हेतु अभिलेख समर्पित किया गया है जिसके आधार पर
विभागीय GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co. द्वारा उक्त दावों की जाँच की गई तथा राशि
रु 9,20,929/- मात्र की राशि दावे के योग्य पाया गया है।

GST परामर्शी फर्म के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा एवं
परामर्शी के प्रतिवेदन निम्न शर्तों के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है:-

- कार्यपालक अभियंता GST Claim के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित
योजनान्तर्गत GST Claim का भुगतान पूर्व में न हुआ हो।
- भुगतान से पूर्व State MIS पर भुगतान की राशि को अपलोड कर दिया गया है।
- जिस संवेदक को भुगतान किया जा रहा है, वह कालीसूची में नहीं हैं।
- संबंधित योजना में ATR लम्बित नहीं है।
- कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि GST Claim की अनुशंसित
राशि का भुगतान संबंधित संवेदक को संबंधित योजना में ही किया जा रहा है।
- एकरारनामा से अधिक राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि का पूरक एकरारनामा कर
लिया गया है।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन




29/8/24

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

ज्ञापांक- BRRDA(HQ) GST-01-524/2024 - 4006

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-टेकारी को सूचनार्थ।
पटना / दिनांक:- 29.08.2024



अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

GST Claim के निष्पादन हेतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित समिति की दिनांक - 8/3/23 को आहूत बैठक की कार्यवाही


विषय :-MMGSY-SC योजनान्तर्गत Construction & Maintenance of Road from Singhra Mathiya Road to Nimrahi एकरासनामा संख्या 21 SBD/MMGSY/2021-2022 में जी.एस.टी. दावा की स्वीकृति के संबंध में।


प्रसंग :- कार्य प्रमंडल, टेकारी का पत्रांक 2320 दिनांक 29.11.2024

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टेकारी द्वारा विषयांकित पत्र में रु० 9,20,929/- की जी.एस.टी. अंतर राशि का दावा जाँच हेतु समर्पित किया गया है। विभागीय पत्रांक 43/2023-761, दिनांक 23.03.2023 के आलोक में विभागीय जी.एस.टी. Consultant M/s SKSS & Co. द्वारा दावे की जाँच की गई तथा रु. 9,20,929/- मात्र की राशि के दावे के योग्य पाया गया है।

तदालोक में एकरासनामा 21 SBD/MMGSY/2021-2022 विषयांकित कार्य Construction & Maintenance of Road from Singhra Mathiya Road to Nimrahi के लिए दावे की राशि रु. 9,20,929/- रुपये मात्र संवेदक संजय कुमार को भुगतान की अनुशंसा की जाती है।


Shweta Singh
विभागीय GST
Consultant
सहायक वित्त
प्रबंधक, ब्रांडा


Prabhat Kumar
वित्त प्रबंधक,
ब्रांडा
GST नोडल पदाधिकारी


Garay Kumar

AKSS & Co

Tel : +91 9263374200
Email- rwdgst@gmail.com

18.06.2025

To,
The Additional Chief Executive Officer,
Bihar Rural Road Development Agency
Rural Works Department
Government of Bihar.

Re: Submission of GST Impact Report of M/s Sanjay Kumar vide agreement number
21 SBD/MMGSY/2021-2022

Ref: Our appointment as GST Consultant by Rural Works Department, vide
agreement number BRDA/01/GST Consultancy dated 24.02.2023 and EE,
RWD Tekari, letter no. 2320 dated 29.11.2024

Respected Sir,

We are appointed to recommend payment of Impact arising on account of roll out of GST
and change in taxation structure by analyzing claim of contractors as per Scope of Work.

GST Impact Summary		
Agreement No.	Name of Project	GST Impact in Rupees (Construction)
21 SBD/MMGSY/2021-2022	Construction & Maintenance of Road from Singhra Mathiya Road to Nimrahi Under MMGSY-SC	9,20,929/-

We are therefore pleased to make our submission of GST Impact Report of M/s Sanjay Kumar for
the following project with reference to the Construction & Maintenance of Road from Singhra
Mathiya Road to Nimrahi Under MMGSY-SC.

DARIYAPUR GOLA ROAD
NALA ROAD, PATNA - 800004

SKSS & Co

Tel : +91 9263374200
Email- rwdgst@gmail.com

With this letter, we would like to draw your attention towards the following

facts:-

- 1) The impact being given is from RA Bill 01 to RA Bill 05. GST impact in later RA bills have to be verified and audited on submission of bill by M/s Sanjay Kumar in future period.
 - a) That with effect from 18th July 2022, the GST rate on works contract has been increased from 12% to 18% vide notification no. 03/2022 – Central Tax (Rate) dated 13.07.2022, hence for payment made after 18th July, 2022 GST @ 18% is applicable.
 - b) That the GST claim amount submitted for approval by the Contractor was Rs.9,20,929/- while as per our recommendation the GST claim amount shall be Rs.9,20,929/- which result in savings of Rs Nil/-.
 - c) That we have verified the deposit of tax from the GST returns and hence, we recommend the payment of 9,20,929/-

For any query or clarification, please contact the undersigned at earliest.

Therefore, kindly do the needful in this regard.

For and on behalf of
SKSS & Co.,

Ananta Singh
18/7/25

Authorized Signatory

Enclosed:-

- 1) GST claim computation

DARIYAPUR GOLA ROAD
NALA ROAD, PATNA - 800004

Sanjay Kumar

M/S Sanjay Kumar
Agreement No. : 21 SBD/MIMGSY 2021-2022
Construction & Maintenance of Road from Singhra Mathiya Road to Nimrahi

RA Bill NO.	Date of payment	Payment as per Certificate (A)	Embedded Tax (B) [Note 1]	GST paid as per GSTR 3B (C)	Actual GST to be Paid (D = (A - B) x 18%)	Claim (E = (C or D, which is lower) - B)
1	27.07.2022	59,12,268		7,09,472		
2	27.04.2023	20,69,221		3,72,460		
3	30.05.2023	38,30,668	17,69,498	6,89,520	27,26,653	9,20,929
4	04.08.2023	9,57,383		1,72,329		
5	20.09.2023	41,48,031		7,46,646		
		1,69,17,571		26,90,427		
	TOTAL					

Computation of Embedded taxes [Note-1]

Particulars	Amount	GST embedded in total work done (%)
Total Work Done Value excluding taxes, cess etc (RA 05)	1,59,51,770	10.460%
GST @ 12%	19,14,212	
1 WC @ 1%	1,59,518	
SI	2,75,637	
Work Done Value including taxes, cess and fees	1,83,01,137	
Work Done Value including taxes, cess and fees (7.56% below)	1,69,17,571	
Total Payment made	1,69,17,571	
Embedded tax from RA Bill 05	19,14,212	

Note-2 GSTR-3B MONTHLY BREAKUP OF July 2022

Name of Division
RURAL WORK DEPARTMENT WORKS DIVISION TIKARI
TOTAL

Taxable Value	% of Tax inclusive of	CGST @ 6%	SGST @ 6%	Total Tax	TDS Received
59,12,268		3,54,736	3,54,736	7,09,472	59,12,268
59,12,268.00		3,54,736.08	3,54,736.08	7,09,472.16	59,12,268.00

Note-3 For The Payment of RA Bill 02 & 03 April-May 2023, the GSTR-3B has been Filed in the month of June 2023, While TDS return has been filed in the respective month.

Note-4 GSTR-3B MONTHLY BREAKUP OF June 2023

Name of Division
RURAL WORK DEPARTMENT WORKS DIVISION TIKARI (RA 02) April
RURAL WORK DEPARTMENT WORKS DIVISION TIKARI (RA 03) May
RURAL WORK DEPARTMENT WORKS DIVISION TIKARI June
TOTAL

Taxable Value	% of Tax inclusive of	CGST @ 9%	SGST @ 9%	Total Tax	TDS Received
20,69,221		1,86,230	1,86,230	3,72,460	20,69,221
38,30,668		3,44,760	3,44,760	6,89,520	38,30,668
65,532		5,898	5,898	11,796	65,532
59,65,421.00		5,36,887.89	5,36,887.89	10,73,775.78	59,65,421.00



Note-5 For The Payment of Month August 2023, The GSTR-3B has been Filed in the month of September 2023, TDS has been filed in the month of August 2023

Note-6

GSTR-3B MONTHLY BREAKUP OF September 2023

Name of Division
RURAL WORK DEPARTMENT WORKS DIVISION TIKARI
RURAL WORK DEPARTMENT WORKS DIVISION TIKARI (Others)
TOTAL

Taxable Value	% of Tax inclusive of	CGST @ 9%	SGST @ 9%	Total Tax	TDS Received
9,57,383		86,164	86,164	1,72,329	10,17,703
60,320		5,429	5,429	10,858	
10,17,703.00		91,593.27	91,593.27	1,83,186.54	10,17,703.00

Note-7 For The Payment of Month September 2023, The GSTR-3B has been Filed in the month of February & March 2024, TDS has been filed in the month of September 2023

Note-8

GSTR-3B MONTHLY BREAKUP OF February 2024

Name of Division
RURAL WORK DEPARTMENT WORKS DIVISION TIKARI
TOTAL

Taxable Value	% of Tax inclusive of	CGST @ 9%	SGST @ 9%	Total Tax	TDS Received
3,36,372		30,273	30,273	60,547	
3,36,372.00		30,273.48	30,273.48	60,546.96	41,48,031

GSTR-3B MONTHLY BREAKUP OF March 2024

Name of Division
RURAL WORK DEPARTMENT WORKS DIVISION TIKARI
RURAL WORK DEPARTMENT WORKS DIVISION TIKARI (Dec-23)
TOTAL

Taxable Value	% of Tax inclusive of	CGST @ 9%	SGST @ 9%	Total Tax	TDS Received
38,11,659		3,43,049	3,43,049	6,86,099	
32,199		2,898	2,898	5,796	32,199
38,43,858.00		3,45,947.22	3,45,947.22	6,91,894.44	41,80,230.00

Disclaimer: The above reconciliation has been prepared based on the documents (GST returns/financial statements/ payment certificate).



Saurabh Kumar